

प्रकाशनार्थ।

12 नवम्बर, गोरखपुर। संस्था योर प्रॉसपर्टी एडवाइजर , गोरखपुर (यू पी ए) एवं गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के सहयोग से सहारा स्टेट क्लब, गोरखपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में चिकित्सालय के मोबाइल वाहन टीम के द्वारा लगभग 20 लोगों ने रक्तदान किया।

रक्तदान शिविर पर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल जी ने योर्स प्रॉपर्टी एडवाइजर (यू पी ए) के प्रबंधक रवि अग्रवाल एवं उनकी टीम को रक्तदान के लिए धन्यवाद दिया है। और बताया कि रक्तदान से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि व्यक्ति का रक्त और साफ, स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति प्रत्येक 3 माह बाद पुनः रक्तदान कर सकता है। रक्तदान महादान है जिसे जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन मिलता है। इस अवसर पर डॉ अग्रवाल ने सभी रक्त दाताओं को धन्यवाद दिया है।

वहीं यू पी ए के प्रबंधक रवि अग्रवाल ने स्वयं रक्तदान करने के बाद कहा कि वर्तमान समय में रक्तदान करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि उनका रक्त कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करने में सहायक होगा। उनके जे कर्मचारियों ने जिस उत्साह से रक्तदान किया है उनको और गुरु श्री गोरखनाथ के प्रभारी डॉ अग्रवाल जी को धन्यवाद दिया है की उनके सहयोग से यह पुनीत कार्य हो सका है।

इस अवसर पर ऋषिकेश श्रीवास्तव, उत्कर्ष, आशुतोष श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, तरुण कुमार, अजीत गुप्ता, पंकज कौशल, अंकित

कुमार ,रवि अग्रवाल, जहीर , अमित श्रीवास्तव सहित 20 लोगों ने रक्तदान किया।

गुरु श्री गोरखनाथ के ब्लड बैंक के तकनीशियन अनुराग संदीप नेहा गुंजा के द्वारा समय से सहारा स्टेट क्लब में सकुशल रक्तदान कराया गया । इस अवसर पर सभी रक्त दाताओं को उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।